



रिन्युअेबल अेनर्जी अंञ्चनियरिंग विभाग
कृषि ँजनेरी अने टेकनोलॉजु कोलेज
आएंड कृषि युनिवर्सिटी
गोधरा-3८६00१

“पुनः प्राप्य ँर्जा स्रोतानुं बागायती पाकोमां महत्व” विषय पर अेक दिवसीय भेदूत तालीम कार्यकम

आएंड कृषि युनिवर्सिटी नी कृषि ँजनेरी अने टेकनोलॉजु कोलेज, गोधरा भाते “अेडवान्सड सेन्टर
ड्नेर रिसर्च अेन्ड ट्रेडिंन्स ट्रेडिंन्ग ओन अेग्रिकल्चरल अंञ्चनियरिंग भेजड ँन्टरवेनशन्स” योजना अंतर्गत
रिन्युअेबल अेनर्जी अंञ्चनियरिंग विभाग अने “HRT-2 योजना”, नायब बागायत नियामकश्रीनी कचेरी,
दाहोड ना संयुक्त ँपकमे “पुनः प्राप्य ँर्जा स्रोतानुं बागायती पाकोमां महत्व” विषय पर अेक दिवसीय
भेदूत तालीम कार्यकम तारीभ 03/0२/२0२४ ना रोज रिन्युअेबल अेनर्जी अंञ्चनियरिंग विभाग, कृषि
ँजनेरी अने टेकनोलॉजु कोलेज, गोधरा भाते योजवामां आव्यो. सदर भेदूत तालीम कार्यकमनुं आयोजन कृषि
ँजनेरी अने टेकनोलॉजु कोलेज, गोधराना आचार्य अने विध्याशाभाअध्यक्षश्री, डॉ. आर. सुब्बैयाहना
मार्गदर्शन हेठण करवामां आवेल आव्युं. आ कार्यकममां देवगढबारिया तालुका, दाहोड जिल्लाना जूदा जूदा
पांय गामोना ५0 जेटला भेदूतोअे हाजर रई ँत्साहमेर भाग लीधेल हतो.

आ कार्यकममां अतिथि विशेष तरीके डॉ. आर. सुब्बैयाह साहेब, आचार्य अने विध्याशाभाअध्यक्षश्री,
कृषि ँजनेरी अने टेकनोलॉजु, गोधरा; श्री नैनेशभाह यौधरी, नायब बागायत नियामकश्रीनी कचेरी, दाहोड
अने रिन्युअेबल अेनर्जी अंञ्चनियरिंग विभाग, कृषि ँजनेरी अने टेकनोलॉजु कोलेजना अधिकारीश्रीओ अने
कर्मचारीश्रीओ हाजर रहा.

कृषि ँजनेरी अने टेकनोलॉजु, गोधराना आचार्य अने विध्याशाभाअध्यक्षश्री, गोधरा द्वारा
तालीमार्थीओने पुनः प्राप्य ँर्जा स्रोतो थी चालता जूदा जूदा साधनो जेवाके सोलर पम्पिंग द्वारा बागायती
पाकोमां पियत तेमज ँन्सेकट ट्रेपिंग सिस्टम, अेग्री वोल्टीक, सोलार ड्रायर, बायोचार अने बायोमास ना
व्यवस्थापन केवी रीते करी शकाय तेना माटे ँपयोगमां लेवाती जूदी जूदी पद्धतियोंनो अने साधनोनो
ँपयोग बागायती पाकोनी भेतीमां ँपयोग केवी रीते करी बागायती पाकोनुं ँत्पादन केवी रीते वधारी
शकाय अने केवी रीते भेदूत तेनी आवक वधारी शके तेना विषे माहितगार करवामां आवेल हता. वधुमां
जमीनमां बायोचार तथा नीडेप स्ट्रक्चर थी बनता भातरनो ँपयोग अने बायोगेस टेकनोलॉजु द्वारा
नीकणती स्लारीनो ँपयोग करी जमीननी इणद्रुपता तेमज ँपज केवी रीते वधारी शकाय तेना विषे पर
माहिती आपेल हती.

सदर तालीममां डॉ. डी. के. व्यास, सह प्राध्यापक द्वारा “बागायती पाकोमां सोलार ँर्जनो
ँपयोगिता अने महत्व” अने भेदूतने सोलारथी चालता जूदाजूदा साधनोनो ँपयोग बागायती पाकोमां
केवी रीते करी शकाय तेमज “निर्धूम चुला थी थता झायदा अने गेर झायदा” अने ँज. जे. श्रवण कुमार,
मददनीश प्राध्यापक द्वारा सोलार ड्रायरनी मददथी ँच्य किंमत धरावता बागायती पाकोनी सौरँर्जा थी
सुकवणी केवी रीते करवी अने भेदूतनी आवकमां वधारो केवी रीते थाय तेना विषे माहिती आपवामां आवेल
हती. ँज. जे. जे. चावडा, आर. ँ. ँ. विभाग द्वारा भेदूत तालीमार्थीओने सोलार टनेल ड्रायर, ग्रीन हाँस
तेमज नेट हाँस, हाँड्रोपोनीक्स सिस्टम, ब्लेक्स टाँप सूर्यकुकर केवी रीते कार्य करे छे अने साँड डिडिंग

ટાઇપ નિર્ધૂમ ચૂલાનું, જુદી જુદી સોલાર પેનલો દ્વારા ઊર્જા ઉત્પાદન સિસ્ટમ અને પેરબોલિક ટાઇપ સૂર્યકુકર પણ સીધું પ્રાયોગિક નિદર્શન કરી બતાવવામાં આવેલ હતું. વધુમાં ખેડૂત ભાઈઓએ સદર તાલીમમાં બતાવેલ સૌર ઊર્જા આધારિત જુદા જુદા સાધનો તેમજ સાઈડ ડિઝિંગ ટાઇપ નિર્ધૂમ ચૂલા તેમને કેવી રીતે ઉપયોગી થશે તેના અભિપ્રાય પણ આપેલ હતા.



તાલીમના અંતે ઈજ. જે. શ્રવણકુમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આર. ઇ. ઇ. વિભાગ દ્વારા આમંત્રિત મહેમાનો, ખેડૂતો તેમજ આયોજકોની આભાર વિધિ કરવામાં આવી હતી.